

राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों की सूची (वर्ष 1986 से 2019 तक)

samanyagyan.com/hindi/gk-kabir-samman-award-winners

कबीर सम्मान के बारे में सामान्य ज्ञान : (Kabir Samman Winners Since in Hindi)

राष्ट्रीय कबीर सम्मान क्या है और क्यों दिया जाता है?

मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने साहित्य और सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठता को सम्मानित करने, साहित्य और कलाओं में राष्ट्रीय मानदण्ड विकसित करने के लिए 'अखिल भारतीय सम्मानों' और राज्य स्तरीय सम्मानों की स्थापना की है। उत्कृष्टता और सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय कविता के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना की है। इस पुरस्कार की स्थापना महान संत कवि कबीर के नाम पर की गयी है, क्योंकि उन्होंने सदियों पहले बहुत सारी रचनाएँ की और समाज को नई निर्भीकता प्रदान की थी। वे आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं।

Quick Info About Kabir Samman in Hindi:

पुरस्कार का वर्ग	साहित्य
स्थापना वर्ष	1986
पुरस्कार राशि	तीन लाख रुपये
प्रथम विजेता	गोपाल कृष्ण अडिग
आखिरी विजेता	गोरटी वेकन्ना (2018)

कबीर सम्मान में दी जाने वाली पुरस्कार राशि:

कबीर सम्मान के अंतर्गत सम्मानित व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा पहले एक लाख पचास हजार रुपये की नकद राशि और सम्मान पत्रिका प्रदान की जाती थी, परन्तु अब उन्हें तीन लाख रुपये नगद धनराशि और सम्मान पत्रिका प्रदान की जाती है।

चयन की प्रक्रिया:

राष्ट्रीय कबीर सम्मान के लिए सृजनात्मकता, उत्कृष्टता और दीर्घ साधना के मानदण्डों को निश्चित किया गया है। चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। सभी स्तरों पर विशेषज्ञों की हिस्सेदारी है और यह भी ध्यान रखा जाता है कि एक ओर साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में व्यापक मतसंग्रह संदर्भ के लिए उपलब्ध रहे। वहीं सम्मान दिये जाने वाले कवि का चयन निष्ठा और विवेक वाले विशेषज्ञ पूरी निष्पक्षता, वस्तुपरकता और निभयता के साथ ऐसे मानदण्डों के आधार पर करते हैं, जो जीवन-दृष्टि, कलानुशासन और सौन्दर्य बोध पर आश्रित हों।

वर्ष 1986 से अब तक कबीर सम्मान विजेताओं की सूची:

वर्ष प्राप्तकर्ता का नाम

1986 श्री गोपाल कृष्ण अडिग

1987 श्री सुभाष मुखोपाध्याय

1988 डॉ. हरभजन सिंह

1989 श्री शमशेर बहादुर सिंह

1990 श्री विन्दा करन्दीकर

1991 श्री हरिन्द्र दवे

1992 श्री रमाकान्त रथ

1995 श्री नवकान्त बरुआ

1996 श्री के. अय्यप्प पणिककर

1997 श्री शंखो घोष

1998 श्री सीतांशु यशस्वन्द्र

1999 श्री नारायण सुर्वे

2000 श्री सीताकान्त महापात्र

2001 श्री कुंवर नारायण

2002 डॉ. चन्द्रशेखर कम्बार

2003 श्री ए. रहमान राही

2004 श्री गोविन्द चन्द्र पाण्डे

2005 श्री अशोक वाजपेयी

2006 श्री अक्किरतम अच्युतन नम्बूदिरी

2007 डा. पदमा सचदेव

2008 श्री मंगेश पाडगाँवकर, मुम्बई

वर्ष प्राप्तकर्ता का नाम

2009 अनिर्णित

2010 -

2011 -

2012 आलोकचंद्रन दासगुप्ता एक बंगाली कवि हैं, जो कविता की 20 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने बंगाली और संथाल कविता और अंग्रेजी और जर्मन में नाटकों का अनुवाद किया है, और जर्मन और फ्रेंच से बंगाली में साहित्य का अनुवाद भी किया है।

2013 रेवा प्रसाद द्विवेदी – बीएचयू के इमेरिटस प्रोफेसर और संस्कृत के कवि प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी को मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया।

2014 प्रतिभा सत्यथी ओडिया साहित्य की प्रख्यात कवयित्री हैं। उन्हें देश के प्रमुख कवियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें राष्ट्रीय कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

2015 अतूर रवि वर्मा – अतूर रवि वर्मा मलयालम भाषा के जाने-माने कवि तथा अनुवादक थे। उनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं : कविता, अतूर रवि वर्मायिडे कविताकल, जे.जे. चिला कुटिप्पुकल, ओरु पुलिमराथिन्ते कथा, नाले मत्तोरु नल मातरम, रंदम यमनगलुडे कथा तथा पुथुनानूरु इत्यादि।

2016 के. शिव रेड्डी – शिव रेड्डी एक लोकप्रिय तेलुगू भाषा अनुकरण कलाकार, हास्य अभिनेता और अभिनेता हैं। वह टॉलीवुड में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

2017 नरेश सक्सेना – नरेश सक्सेना एक लोकप्रिय हिन्दी भाषा अनुकरण कलाकार, कविता, नाटक, पटकथा लेखन, फिल्म निर्देशन है। इन्हें पहला सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 1992 मिला था जिसके बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्मान, शमशेर सम्मान प्रपट हुए इन्होंने फिल्म निर्देशन में संबंध, जल से ज्योति, समाधान, नन्हें कदम (सभी लघु फिल्में) पर कार्य किया।

2018 गोरटी वेकन्ना – 2018 का ये सम्मान तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना को प्रदान किया गया ये जाने-माने कवि तथा अनुवादक हैं।

नीचे दिए गए प्रश्न और उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। यह भाग हमें सुझाव देता है कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्नोत्तरी एसएससी (SSC), यूपीएससी (UPSC), रेलवे (Railway), बैंकिंग (Banking) तथा अन्य परीक्षाओं में भी लाभदायक है।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर (FAQs):

प्रश्न: राष्ट्रीय कबीर सम्मान से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था?

उत्तर: गोपाल कृष्ण अडिग

प्रश्न: किस वर्ष में राष्ट्रीय कबीर सम्मान की शुरुआत की गई थी?

उत्तर: 1986 में

प्रश्न: राष्ट्रीय कबीर सम्मान की राशि क्या होती है?

उत्तर: तीन लाख रुपये

प्रश्न: किस क्षेत्र में राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाता है?

उत्तर: साहित्य

प्रश्न: वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे नवाजा गया था?

उत्तर: रवि वर्मा